

केंद्रीय विद्यालय सीतापुर

विषय : विश्व एड्स दिवस

दिनांक 01.12.2015 को केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया । इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों को एड्स के प्रति जागरूकता करना था । विद्यालय के शिक्षकों श्री सुरेश कुशवाहा एवं श्री राम शब्द राम ने एड्स का कारण एवं बचाव पर विस्तृत एवं ज्ञानपरक जानकारी छात्रों एवं शिक्षकों को दी । छात्रों की तरफ से वर्तिका सिंह कक्षा X ब एवं पलक पाण्डेय कक्षा VIII ब ने भी एड्स के बारे में ज्ञान परक जानकारी दी । बीच- बीच में छात्रों से एड्स से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे गए तथा छात्रों ने उत्साह पूर्वक उनके उत्तर दिए । कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक श्री रजत कुमार एवं श्रीमती चंचल श्रीवास्तव का भी योगदान सराहनीय रहा । विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार ने अंत में छात्रों को सन्देश दिया कि वे अन्य लोगों को भी एड्स के प्रति जागरूक करें तथा खुद भी जागरूक हों जिससे इस भयानक बीमारी से बचा जा सके ।

विद्यालय की द्वितीय पाली की प्रार्थना सभा में सर्वप्रथम विश्व एड्स जागरूकता दिवस पर प्रकाश डालते हुए श्रेया तिवारी 10 B , महक टंडन 10 B ,आहना मिश्रा 10 B तथा महक अरोरा 10 A ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से एड्स विषय पर कारण और निवारण पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया । सुश्री रुचि शिक्षिका (विज्ञान) द्वारा एड्स विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयीं । श्री अमित वर्मा (स्टाफ नर्स) ने विश्व एड्स जागरूकता दिवस का वैश्विक लोगो (LOGO) माननीय उप प्राचार्य को लगाया । कार्यक्रम के समापन पर उप प्राचार्य महोदय ने एड्स के संदर्भ में सामाजिक दायित्वों के साथ भय मुक्त वातावरण बनाते हुए छात्रों को अपने दायित्वों के प्रति सजग किया । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुमति हजेला द्वारा किया गया ।

दिनांक : 01.12.15

(सुनील कुमार)
प्राचार्य